

**REPORT**  
**ON**  
**NATIONAL YOUTH DAY**



**SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF  
EDUCATION, TARKWARI, TEHSIL  
BHORANJ, DISTT. HAMIRPUR (HP)-176045**  
**CELEBRATION OF**



**NATIONAL YOUTH DAY (12th January)**

Take risks in your life..  
If you win; you may lead..  
If you loose; you may guide..  
- Swami Vivekananda



**Venue: Seminar Hall**

**No of Participant: 92**

**Chief Guest: Prof. Shashi Kumar Dhiman, Vice-Chancellor, NIT University, Himachal Pardesh**


**Co-Ordinator: Mrs Amita Rani, NSS Unit Programme Officer**



On the occasion of National Youth Day on Sunday (12 January 2025), Swami Vivekanand College of Education, NSS Unit, Tarkwari remembered Swami Vivekananda on his birth anniversary. On the occasion of Swami Vivekananda's 162nd birth anniversary, a special declamation competition was organized at the seminar hall by the National Service Scheme (NSS) unit of the college under the leadership of chairman, CA Rajeev Sharma. Before the start of the declamation competition, NSS programme officer talked about the biography of Swami Vivekananda. Seven NSS volunteers took part in this competition. Out of seven participants, three participants achieved first, second and third position. Rajeev Kumar (NSS Volunteer) achieved first position, Priyanka (NSS Volunteer) achieved second and Mamta (NSS Volunteer) got third position. These three participants were awarded cash prizes by the chief guest. In this program, Chairman was accompanied by principal, NSS officials, volunteers and Heads of various departments, professors, students. The program started with lighting of lamps and garlanding the picture of Vivekananda ji. Further, Chairman, CA Rajeev Sharma threw light on the ideals and thoughts of Swami Vivekananda. He said that the thoughts of Swami Vivekananda are inspirational for all of us. His life is exemplary for the youth, taking inspiration from which the youth can become virtuous and self-reliant. Today, on Vivekananda's birthday, let us all take a pledge that we will play our role in nation building by following the path shown by him. On this occasion, students and members of the university family also took a pledge to play their role in nation building by taking inspiration from the life of Swami Vivekananda.

## PHOTOGALLERY








GPS Map Camera

Dhirwin, Himachal Pradesh, India  
Jvh+pcx, Dhirwin, Himachal Pradesh 176045,  
India

Lat 31.644317° Long 76.628494°  
12/01/2025 10:39 AM GMT +05:30



# स्वामी विवेकानंद शिक्षा महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

## वार्षिक समारोह

► इस अवसर पर प्रशिक्षु अध्यापकों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया

### टीम एक्शन इंडिया विवेकानंद विशिष्ट

हमीरपुर: स्वामी विवेकानंद शिक्षा महाविद्यालय तर्कवाहो में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया साथ ही महाविद्यालय को एन एम एस अफिसर अमोता रानो ने स्वामी जी की शिक्षाओं के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस का आरंभ किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु अध्यापकों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया



गया जिसमें राजीव प्रथम प्रियंका द्वितीय और ममता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर शशि कुमार धीमान (उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश टैक्निकल यूनिवर्सिटी) मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंजली शर्मा ने सत्र 2023-24 की वार्षिक नतिशोधों को रिपोर्ट को मुख्यअतिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष रखा उन्होंने

वर्ष भर में की गई विभिन्न प्रकार की नतिशोधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बी एड सत्र 2022-24 के वार्षिक परिणाम में कृतिता, अनुपमा व अंकित ठाकुर ने प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया और डी. एल. एड. सत्र 2021-23 में प्रीति शर्मा, रिया ठाकुर और दीपाली ठाकुर ने प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल कर अपने माता-पिता व कॉलेज का नाम रोशन किया। मुख्य अतिथि महोदय ने प्रशिक्षु अध्यापकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सांस्कृतिक व साव्यभौमिक मूल्यों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षु अध्यापकों को

स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के संवरमेन सी ए. राजीव शर्मा ने मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। मुख्यअतिथि महोदय ने विभिन्न नतिशोधों में अखिल रहे प्रशिक्षु अध्यापकों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जनरल आरु एजुकेशनल रिसर्च सोल्यूम अंक का मुख्य अतिथि द्वारा विमोचन किया गया। वहीं स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सी.ए. राजीव शर्मा जी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

